

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल हथुआ।

पत्रांक:- 498 अगु / हथुआ।

दिनांक:- 05/05/2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हथुआ।

सेवा में,

सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण,
बिहार पटना।

विषय :- राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार ग्रामीण पथ नई अनुरक्षण नीति-2018 के तहत पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि के अधीन पथों में कराये गये त्रैमासिक अनुरक्षण कार्य हेतु राशि की अधियाचना उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में सभी सूचनाओं के साथ अंकित कर समर्पित किया जाता है।

अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन,



कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, हथुआ।

1st quarter

STANDARD FORMAT FOR ROADS QUARTERLY STATEMENT

PIU Name : E E RWD WORKS DIVISION - HATHUA

1	Name of the Road	Selur Khurd To Turkaham		
2	Batch No.	RM/GO/HAT/19/0006		
3	Project ID	31402001008		
	Total Length of Road (in Km)	1.40 K.M.		
5	Length of Road to Meet Required Service Level [Completed length] (in Km) [1]	1.40 K.M.		
6	No. of Total Quarter (ie 3 Months as a unit) in 5 years	20		
7	Ordinary Maintenance Cost as per Schedule [Agreement Amount for Maintenance] (in Lakh)	13.61095		
8	Quarterly Payment : 1/20 of Ordinary Maintenance Cost as per Schedule (in Lakh) [2]	0.68054		
Compliance Criteria	Standard Job Description	Non- Compliance		Reduction Payments [6] = [3] / [1] * [2] * [4]
		Length Non-Compliant [3]	Weighted value for Payment Reduction (%) [4]	
I	PAVED ROADS (CARRIAGEWAY)	00	60%	00
II	SHOULDERS AND EMBANMENTS	00	10%	00
III	CROSS DRAINAGE INCLUDING CULVERTS AND BRIDGES	00	15%	00
IV	SIGNAGE AND ROAD SAFETY	00	10%	00
V	VEGATAION	00	5%	00
TOTAL PAYMENT REDUCTION FOR THE QUARTER (in Lakh) [5]				00
TO HE PAID FOR THE QUARTER / DEMAND (in Lakh) [6]				0.68054

Date of inspection by E/I or his agent
Prepared by Contractor's self Control unit

M
14/3/22
Name and Designation of person inspecting road

Date *14-3-22*
J.E

Signature of person inspecting road

(Signature)
[Signature]
Certify by E/I [signature] Date:- *14/03/22*

Name of work : Selar Khurd to Turkahan

Name of customer : M/S Vishvas Infrastructure

(R)Rural Road

Good	Average	Poor
< 4000	4001 - 5000	> 5000


Date	Time	Test No	Distance(m)	Total Distance(m)	BUM(P/cm)	Speed(Km/Hr)	UII(mm/Km)	Corrected UII (mm/Km)	IRI	Status	Latitude	Direction	Longitude	Direction1	Remarks
12/03/22	10:13:54	23	100	100	35.0 cm	13.8 Km/Hr	3500.0 mm/Km	3521	4.65	Good	26.4639540	N	84.2683115	E	Normal
12/03/22	10:14:07	23	100	200	36.0 cm	26.4 Km/Hr	3600.0 mm/Km	3615	4.76	Good	26.4639540	N	84.2683115	E	Normal
12/03/22	10:14:26	23	100	300	39.0 cm	18.8 Km/Hr	3900.0 mm/Km	3896	5.09	Good	26.4639540	N	84.2683115	E	Normal
12/03/22	10:14:43	23	100	400	36.0 cm	22.0 Km/Hr	3600.0 mm/Km	3615	4.76	Good	26.4639540	N	84.2683115	E	Normal
12/03/22	10:14:57	23	100	500	34.0 cm	25.4 Km/Hr	3400.0 mm/Km	3428	4.54	Good	26.4639540	N	84.2683115	E	Normal
12/03/22	10:15:07	23	100	600	17.0 cm	36.3 Km/Hr	1700.0 mm/Km	1836	2.6	Good	26.4639540	N	84.2683115	E	Normal
12/03/22	10:15:19	23	100	700	15.0 cm	27.9 Km/Hr	1500.0 mm/Km	1649	2.36	Good	26.4639540	N	84.2683115	E	Normal
12/03/22	10:15:30	23	100	800	14.0 cm	33.4 Km/Hr	1400.0 mm/Km	1556	2.24	Good	26.4639540	N	84.2683115	E	Normal
12/03/22	10:15:39	23	100	900	25.0 cm	40.3 Km/Hr	2500.0 mm/Km	2585	3.53	Good	26.4639540	N	84.2683115	E	Normal
12/03/22	10:15:48	23	100	1000	24.0 cm	36.2 Km/Hr	2400.0 mm/Km	2492	3.41	Good	26.4639540	N	84.2683115	E	Normal
12/03/22	10:15:58	23	100	1100	30.0 cm	35.6 Km/Hr	3000.0 mm/Km	3053	4.09	Good	26.4639540	N	84.2683115	E	Normal
12/03/22	10:16:07	23	100	1200	23.0 cm	40.3 Km/Hr	2300.0 mm/Km	2398	3.3	Good	26.4639540	N	84.2683115	E	Normal
12/03/22	10:16:18	23	100	1300	28.0 cm	32.7 Km/Hr	2800.0 mm/Km	2866	3.87	Good	26.4639540	N	84.2683115	E	Normal
12/03/22	10:16:51	23	100	1400	29.0 cm	12.1 Km/Hr	2900.0 mm/Km	2960	3.98	Good	26.4639540	N	84.2683115	E	Normal

Handwritten signature
12/3/22

Handwritten signature
14/3/22

Handwritten signature
14/3/22

Name of Customer: M/S Vishvas Infrastructure, Machine no: 19193, Road: M/S Vishvas Infrastructure, Date: 12/03/22, Section No: 23, Equation: $V = -0.936X + 245.3$



[Signature]
12/03/22
E.B

[Signature]
14/03/22
A.B

[Signature]
14/03/22
E.B

